

गोम के बच्चे

Children of wax



Southern African Folktales ✎
Wiehan de Jager & Nandani! 📖
॥ 2
हिंदी / English [en]



Global Storybooks

globalstorybooks.net

गोम के बच्चे / Children of wax

Southern African Folktales ✎
Wiehan de Jager & Nandani! (hi) 📖



This work is licensed under a Creative Commons
[Attribution 3.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>





एक समय की बात है, एक बहुत ही खुशहाल परिवार था।

...

Once upon a time, there lived a happy family.

They never fought with each other.
They helped their parents at home and
in the fields.

...

वे कभी एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। वे घर पर और
खेतों में अपने माता-पिता की मदद करते थे।





पर उन्हें आग के पास जाने की अनुमति नहीं थी।

...


But they were not allowed to go near a fire.

They had to do all their work during the night. Because they were made of wax!

...

बने हुए थे।

वे अपना सारा काम रात में करते थे, क्योंकि वे मोम से



And as the sun rose, he flew away singing into the morning light.

...

गाता हुआ उड़ गया।

और जैसे ही सूरज निकला, वह सबहक की रोशनी में






लेकिन उन में से एक लड़के की सूरज की रोशनी में जाने की इच्छा थी।

...

But one of the boys longed to go out in the sunlight.



वे अपने चिड़िया बने भाई को एक ऊँचे पहाड़ पर ले गए।

...

They took their bird brother up to a high mountain.

One day the longing was too strong. His brothers warned him...

...

एक दिन उसकी जाने की बहुत च्छाटा डेखा हुँके तो उसके भाइयों ने उसे चेतावनी दी...



But they made a plan. They shaped the lump of melted wax into a bird.

...

पर उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने उस मीम को एक चिड़िया का आकार दे दिया।





पर बहुत देर हो चुकी थी! वह गर्म धूप में पिघल गया था।

...

But it was too late! He melted in the hot sun.



अपने भाई को पिघलता देख मोम के बच्चे बहुत उदास हो गए।

...

The wax children were so sad to see their brother melting away.